



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 1978/भाद्र 16, 1900

No. 266]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1978/BHADRA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1978

सीमाशुल्क

सां०कां०नि० 447 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं० 23 के अन्तर्गत सम्मिलित चाय को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अर्धेन उस पर उद्घाटनीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो 2 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है।

[सं० 173/का०सं० 347/8/78 टी०भार० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th September, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 447 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tea, falling under Heading No. 23 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 2 per kilogram.

[No. 173/F. No. 347/8/78-TRU]

सीमाशुल्क

सां०कां०नि० 448(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित

में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 37-सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "और विद्युत ग्रेड के रोधों कागज", शब्दों के स्थान पर, 'विद्युत ग्रेड रोधों कागज और विद्युत ग्रेड रोधों गत्ते', शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 174/का०सं० बजट 26/7/78—टी आर० यू०]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

## CUSTOMS

**G.S.R. 448 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37-Customs, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the said notification, for the words "and Electrical grade Insulation Paper", the words "electrical grade insulation paper and electrical grade insulation paper board" shall be substituted.

[No. 174/F. No. B. 26/7/78-TRU]  
JOSEPH DOMINIC, Under Secy.